



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 215) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना  
13 जनवरी 2014

सं0 22 नि0 सि0(डि0)-14-04/2013/65—श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (आई0डी0-3590), सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए विभागीय कार्यों की उपेक्षा कर जिला के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यों में संलग्न कर लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-782 दिनांक 04.07.2013 द्वारा निलम्बित किया गया था। आरोपों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने में हुए विलम्ब के कारण श्री कुमार के विरुद्ध तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी। उक्त मामले में सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार की निलम्बन अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (7) के अन्तर्गत अगले चार माह के लिए नवीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुमन कुमार, सहायक अभियन्ता (सम्प्रति निलम्बित) की निलम्बन अवधि दिनांक 04.10.2013 से अगले चार माह के लिए नवीकृत किया जाता है।

शेष यथावत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से  
मोहन पासवान,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 215-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>